



सत्यमेव जयते

# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

संख्या- 49 राँची, गुरुवार, 12 माघ, 1939 (श०)  
1 फरवरी, 2018 (ई०)

---

#### नगर विकास एवं आवास विभाग

-----

अधिसूचना

19 दिसम्बर, 2017

संख्या- 8/अधि./104/2012 न.वि.आ.-7775-- झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम-2011 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल एतद् द्वारा "झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली-2012" के अध्याय-4 नियम-18 (2) (क) में निम्न रूपेण संशोधन करते हैं:-

क्र.	नियमावली का नियम	अधिसूचित नियमावली में किया गया प्रावधान	संशोधित प्रावधान
1	2	3	4
1	अध्याय-18 (2) (क)	ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जब तक वह अधिनियम एवं इस नियमावली या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अयोग्य घोषित न हो, उस नगरपालिका अथवा उसके प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के पदधारी के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए पात्र होगा जिसकी मतदाता सूची में उसका नाम सम्मिलित है ।	ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जबतक वह अधिनियम एवं इस नियमावली या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अयोग्य घोषित न हो, उस नगरपालिका के किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के पदधारी के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र होगा जिसकी मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज हो ।

2. यह संशोधन अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त होगा ।
3. “झारखण्ड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली-2012 के अध्याय-4 नियम-18 (2) (क)” में संशोधन प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद झारखण्ड के द्वारा दिनांक 12 दिसम्बर, 2017 को मद संख्या-1 के रूप में सम्मिलित करते हुए स्वीकृति प्रदान की गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

**अरुण कुमार सिंह,**  
सरकार के प्रधान सचिव ।

-----